



डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन

नयी दिल्ली
दिनांक. 08.08.2018

प्रेस विज्ञप्ति

श्री अनुराग सचान डीएफसीसीआईएल के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त



श्री अनुराग सचान ने 04.08.2018 को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। पेशे से सिविल इंजीनियर, वह इंडियन रेलवे सर्विसेस ऑफ इंजीनियर्स (IRSE) 1981 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने भारतीय रेलवे के साथ अपने 35 साल के लंबे कैरियर के दौरान बड़ी चुनौतीपूर्ण और तकनीकी रूप से उन्नत रेलवे आधारभूत संरचना परियोजनाओं को पूरा किया है।

इसके पहले, श्री सचान उत्तर रेलवे की उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे, जो की भारतीय रेलवे की अब तक की सबसे चुनौतीपूर्ण और प्रतिष्ठित रेल परियोजना है। यह राष्ट्रीय महत्व की एक प्रतिष्ठित परियोजना है, जिसकी लागत 29,000 करोड़ रुपये है। इन्होंने रेलवे बोर्ड, डिवीजन और जोनल स्तरों पर भारतीय रेलवे में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिसमें कार्यकारी निदेशक/भूमि और सुविधाएं, रेलवे बोर्ड, मुख्य अभियंता/निर्माण, पश्चिमी रेलवे, मुंबई, मंडल रेलवे प्रबंधक, उत्तरी रेलवे, दिल्ली, मुख्य अभियंता/निर्माण, मेट्रोपॉलिटन परिवहन परियोजना, सेंट्रल रेलवे, मुंबई और मुख्य परियोजना प्रबंधक, पश्चिमी रेलवे, अहमदाबाद शामिल हैं।

इनकी कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं, जिनमें सघन मुंबई उपनगरीय खंड में महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निष्पादन शामिल है। वह गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा के दूरस्थ हिस्सों बुनियादी ढांचा निर्माण परियोजनाओं के साथ निकटता से जुड़े रहे हैं। इन्होंने भारतीय रेलवे के सबसे बड़े मंडल, दिल्ली मंडल, उत्तर रेलवे का डिवीजनल रेलवे मैनेजर के रूप में नेतृत्व किया है, जो की 40,000 से अधिक कर्मियों की विशाल जनशक्ति के साथ प्रति वर्ष 7,000 करोड़ रुपये की आय करता है। डिवीजनल रेलवे मैनेजर, दिल्ली के रूप में, उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, रेलवे के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

श्री सचान स्वयं एक अच्छे खिलाड़ी होने के साथ साथ, एक कुशल खेल प्रशासक भी हैं। उनके नेतृत्व में कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाई और देश के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त किए।

प्रकाशन और रिले के लिए।

(राजेश खरे)
उप महाप्रबन्धक/सीसी
9717636888